



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1851]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2011/आश्विन 6, 1933

No. 1851]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2011/ASVINA 6, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2011

**का.आ. 2238(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1123(अ), तारीख 18 मई, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के इन्दौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 595.100 कि.मी. से 610.100 कि.मी. और 0.000 कि.मी. से 12.600 कि.मी. (इन्दौर-देवास सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 15 जुलाई, 2011 को “नई दुनिया” में और तारीख 16 जुलाई, 2011 को “फ्री प्रेस” में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के कि.मी. 595.100 से कि.मी. 610.000 एवं कि.मी. 0.000 से कि.मी. 12.800 (देवास- इन्दौर सेक्शन ) तक के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	इन्दौर	इन्दौर	(1) अरंडिया	62/1/1	निजी	सिंचित	0.035	मैसर्स आशीर्वाद स्काईहाईट टावर्स प्रा.लि. तर्फ डायरेक्टर महेन्द्रसिंह पिता हरपालसिंह
				93/4/1	निजी	सिंचित	0.013	सुभाष पिता रामविलास कुमावत
				योग			0.048	
			(2) माया खेड़ी	4/3/1	निजी	सिंचित	0.024	श्रीकिशन पिता चौईतराम मतलानी (फर्मी)
				4/3/2	निजी	सिंचित	0.012	गजेन्द्रनाथ पिता हरिनारायण रविशंकर शुक्ला
				4/4	निजी	सिंचित	0.024	हरदयालसिंह पिता रामशरण सिंह वगैरह
				योग			0.060	
			(3) निपानिया	84/5	निजी	पडत	0.035	परविन्द्रसिंह पिता हकीमसिंह वगैरह
				203	निजी	सिंचित	0.035	न्यू इंदौर ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. तर्फ हस्ताक्षर कर्ता गोपालचन्द पिता प्रेमचन्द गोयल
				268/1/1	निजी	सिंचित	0.035	एक्सल फ्युचर प्रा.लि. तर्फ डायरेक्टर सुरेन्द्र पिता प्रेमचन्द दर्पण आनंद पिता हरभजन आनंद चन्द्रकला पति प्रकाशचन्द रिजवानी
				277/1	शासकीय	चरागाह	0.015	शासकीय चारागाह
				278/1	निजी	पडत	0.020	नायता पटेल समाज
				281/1	निजी	पडत	0.067	दर्शन हाऊसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. तर्फ डायरेक्टर प्रमोद पिता दर्शनलाल
				286/1/1/2	निजी	पडत	0.050	साधना पति प्रवीण ककड़ वगैरह
				योग			0.257	
			(4) खजराना	247/2/2	निजी	पडत	0.110	द्वारका प्रसाद शर्मा
				250/1/3	निजी	पडत	0.025	शान्ती डेवलपर्स तर्फ पार्टनर राजे पिता नन्दीराम पमनानी
				247/1/7	निजी	परिवर्तित	0.040	मैसर्स श्रद्धा डेवलपर्स तर्फ भागीदार तरुण पिता विट्ठलराव
				250/1/1	निजी	पडत	0.180	विनोद पिता राममान, बद्रीलाल पिता रामरतन कुल्मी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				250/1/2	निजी	पडत	0.130	शान्ती डेवलपर्स तर्फे पार्टनर राजे पिता नन्दीराम पमनानी
				250/1/4	निजी	पडत	0.280	प्रणव पिता देवेन्द्र प्रधान
				250/1/5	निजी	पडत	0.200	शान्ती डेवलपर्स तर्फे पार्टनर राजे पिता नन्दीराम पमनानी
				247/3	निजी	पडत	0.060	श्याममल पिता अमृतलाल, मणिबाई पति चांदमल शालगिया
				247/4	निजी	पडत	0.110	हिमांशु पिता सतीश सिन्धी
				247/5	निजी	पडत	0.180	यशोदाबाई पति स्व. रामनारायण कुल्ली
				247/6	निजी	पडत	0.150	कु. नेहा पिता डॉ. सुरेश कटोर
				247/7	निजी	पडत	0.140	श्रीमती विनिता पति डॉ. सुरेश कटोर
				247/2/1	निजी	पडत	0.135	द्वारका प्रसाद पिता सासीलाल शर्मा शिल्पा पति सतीश सिंहल पिता द्वारका प्रसाद शर्मा दीपक पिता गोविन्द अग्रवाल गोविन्द पिता सीताराम अग्रवाल
				248/1/1	निजी	पडत	0.020	फाइव स्टार डेवलपर्स प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर पवन पिता इन्दरीलाल जैन
				248/1/2	निजी	पडत	0.020	अमृत पिता लूणचन्द्र मेहता
				365/1	निजी	सिंचित	0.098	दौलत पिता प्यारजी नायता
				382/1	निजी	पडत	0.108	मे. सेटेलाइट कॉर्पोरेशन तर्फे पार्टनर मुकेश पिता रश्मिलाल झवेरी
				388/2/5	निजी	पडत	0.002	नीरज पिता जगदीश धनानी
				381/2	निजी	पडत	0.041	स्नेह पति पारस कुमार सांड मधु पति अभय कुमार सांड सीमा पति नेमीचंद सांड (शा. सीलिंग से प्रभावित)
				योग			2.029	
		(5) बिचोली हप्पी	10		शासकीय	चरागाह	0.040	शासकीय चारागाह
				12/1/5	निजी	पडत	0.027	राजेश पिता मोतीचन्द चोरडिया
				12/3	निजी	पडत	0.180	महेन्द्र सिंह पिता हरपालसिंह, कु. पल्लवी पिता माखनलाल वर्मा
				31/3/15	निजी	पडत	0.005	गोविन्द सारडा
				32/1/1	निजी	पडत	0.044	हिन्दुसिंह पिता छोटूसिंह मालवीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				32	निजी	पडत	0.010	संवाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित तर्फे अध्यक्ष पी. चांद
				39	निजी	पडत	0.045	सुभाष. सुनील पिता संतोष गावडे, संतोष पिता तुकाराम गावडे श्रीमति जया
				45	शासकीय	चरागाह	0.060	शासकीय चारागाह
				135 / 1	निजी	पडत	0.025	निरज पिता श्रीचंद पंजवानी श्रीमति कविता पति श्रीचंद पंजवानी श्रीमति नीलू पति हीरालाल पंजवानी
				138 / 1 / 1	निजी	पडत	0.010	पूजराज सिंह वगैरह
				56 / 1	निजी	पडत	0.030	दशरथसिंह वगैरह पिता छतरसिंह, तख्तासिंह पिता केशरसिंह, दीपेन्द्र सिंह
				योग			<b>0.476</b>	
		(6) बिचौली मर्दाना		101 / 1 / 1	शासकीय	रास्ता	0.049	शासकीय रास्ता
				योग			<b>0.049</b>	
		(7) मुंडला नायता		555 / 3	निजी	पडत	0.028	मोहम्मद इजरीश पिता मोहम्मद युनुस मोहम्मद इलियास पिता खेरुला युसुफ पिता रमज्यान खा
				414 / 3 / 3	निजी	परिवर्तित	0.030	सतविन्द्र सिंह पिता डॉ. आर. एस. मखीजा, रमणदीप कौर पति सतविन्द्रसिंह
				414 / 3 / 1	निजी	पडत	0.026	अलीहुसैन उर्फ अल्लाबक्ष, खुदावक्ष बली, मोहम्मद पिता गुलाब नायता
				552 / 1	निजी	पडत	0.004	मुबारिक अमजद खां पिता शहनवाज खां
				योग			<b>0.088</b>	
		(8) राला मण्डल		129	शासकीय	चरागाह	0.091	शासकीय चारागाह भूमि
				137	निजी	पडत	0.020	प्रमिला पति रविन्द्रकुमार व्यास, पूनमचंद, नागूलाल, पदमचंद, हुकुमचंद पिता शकर
				योग			<b>0.111</b>	
		(9) केलोद करताल		852 / 1 / 1 / 1	निजी	पडत	0.003	बालकृष्ण पिता नानकचंद
				853 / 1	निजी	पडत	0.021	लखन पिता महावीर प्रसाद गुप्ता
				856 / 1 / 1	निजी	पडत	0.003	नरेन्द्र सिंह पिता तेजसिंह
				841 / 1 / 1	निजी	सिंचित	0.010	गीताबाई पति छगनलाल वगैरह राजपूत
				842 / 1	निजी	सिंचित	0.020	मनोरमाबाई पति गजानंद राव वगैरह जमींदार
				843	शासकीय	पडत	0.020	शासकीय चारागाह भूमी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				844 / 1	निजी	पडत	0.020	धूलीचंद पिता किशनचंद राजपूत
				828 / 1 / क	निजी	सिधित	0.030	शीलादेवी पति चन्द्रशेखर राजपूत जमींदार
				योग			<b>0.127</b>	
			(10) राउ जागीर	555	निजी	पडत कॉलोनी	0.165	राम रहीम कॉलोनी
				557 / 1	निजी	पडत	0.044	मोहन पिता पूना जी
				557 / 2	निजी	पडत	0.014	आनंदकुमार पिता कल्याणमल न्याती
				557 / 3	निजी	पडत	0.015	गोपालदास पिता रामनाथ न्याती
				557 / 4	निजी	पडत	0.015	सम्पतकुमार पिता रामचन्द्र न्याती
				557 / 5	निजी	पडत	0.014	मनीषकुमार पिता राधेश्याम न्याती
				557 / 6	निजी	पडत	0.014	श्रीमती इन्द्रादेवी पति गिरधारीलाल, गोपालदास पिता रंगनाथ, मनीष
				557 / 7	निजी	पडत	0.015	सम्पतकुमार पिता रामचन्द्र, आनंद पिता कल्याणमल, मनीष पिता राधेश्याम
				557 / 8	निजी	पडत	0.024	राजेन्द्र कुमार पिता विठ्ठलदास न्याती
				557 / 9	निजी	पडत	0.034	संतोषदेवी पति सम्पतकुमार न्याती
				557 / 10	निजी	पडत	0.015	महेश पिता कैलाशचन्द्र, शांतीलाल पिता चतुर्भुज पाटीदार
				557 / 11	निजी	पडत	0.015	श्रीमती विरेन्द्र पति कर्णवीर
				558 / 4	निजी	पडत	0.070	मैसर्स सुलेह डेवलपर्स प्रा.लि. तर्फे मनोज पिता नन्दलाल सुलेह
				योग			<b>0.454</b>	
				महा योग			<b>3.699</b>	

[फा. सं. भारराप्रा/एन एच डी पी-V/एम सी-II/भू.अ./आईडी]

माया प्रकाश, उप-सचिव

3625 40/11-2

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2011

**S.O. 2238(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1123 (E), dated the 18<sup>th</sup> May, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 3 on the stretch of land from Km 595.100 to Km. 610.000 and Km. 0.000 to Km. 12.600 (Indore-Dewas Section) in District Indore in the State of Madhya Pradesh ;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Nai Dunia", dated the 15<sup>th</sup> July, 2011, and in "Free Press", dated the 16<sup>th</sup> July, 2011 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 595.100 to Km. 610.000 and Km. 0.000 to Km. 12.600 (Dewas-Indore Section) of the National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of person Interested
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indore	Indore	(1) Arandiya	62/1/1	Private	Irrigated	0.035	M/s. Ashirwad Skyhight Towers Pvt. Ltd. Director Mahendra s/o Harpal Singh
				93/4/1	Private	Irrigated	0.013	Subhash s/o Ramvilas Kumavat
				Total			0.048	
			(2) Mayakhedi	4/3/1	Private	Irrigated	0.024	Shrikishan s/o Choitram
				4/3/2	Private	Irrigated	0.012	Gajendranath s/o Harinarayan
				4/4	Private	Irrigated	0.024	Hardayalsingh s/o Ramsharansingh etc.
				Total			0.060	
			(3) Nipania	84/5	Private	Padat	0.035	Parvindersingh s/o Hakimsingh
				203	Private	Irrigated	0.035	New Indore Transport Pvt. Ltd. Proprietor Gopalchand s/o Premchand Goyal
				268/1/1	Private	Irrigated	0.035	Excel Future Pvt. Ltd. Proprietor Director Surendra s/o Premchand, Darpan Anand s/o Harbhajan Anand, Chandrakala w/o Prakashchand Rizwani
				277/1	Govt.	Charnot	0.015	Govt. Charnot
				278/1	Private	Padat	0.020	Nayata Patel Samaj
				281/1	Private	Padat	0.067	Darshan Housing Pvt. Ltd. Proprietor Director Pramod s/o Darshanlal
				286/1/1/2	Private	Padat	0.050	Sadhna w/o Praveen Kakad etc.
				Total			0.257	
			(4) Khajrana	247/2/2	Private	Padat	0.110	Dwarka Prashad Sharma
				250/1/3	Private	Padat	0.025	Shanti Developers Proprietor Partner Raje s/o Nandiram Pamnani
				247/1/7	Private	Diverted	0.040	M/s. Shradha Developers Proprietor Partner Tarun s/o Vithalrao
				250/1/1	Private	Padat	0.180	Vinod s/o Ramman, Badrilal s/o Ramratan Kulmi
				250/1/2	Private	Padat	0.130	Shanti Developers Proprietor Partner Raje s/o Nandiram Pamnani

3625 96/11-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				250 / 1 / 4	Private	Padat	0.280	Pranav s/o Devendra Pradhan
				250 / 1 / 5	Private	Padat	0.200	Shanti Developers Proprietor Partener Raje s/o Nandiram Pamnani
				247 / 3	Private	Padat	0.060	Shyammal s/o Amratlal, Manibai w/o Chandmal Shalgia
				247 / 4	Private	Padat	0.110	Himanshu s/o Satish Sindhi
				247 / 5	Private	Padat	0.180	Yashodabai w/o Late Ramnarayan
				247 / 6	Private	Padat	0.150	Miss Neha d/o Dr. Suresh Kator
				247 / 7	Private	Padat	0.140	Smt. Vinita w/o Dr. Suresh Kator
				247 / 2 / 1	Private	Padat	0.135	Dwarka Prashad s/o Sasilal Sharma, Silpa w/o Satish Singhal s/o Dwarka Prashad Sharma, Deepak s/o Govind Agrawal, Govind s/o Sitaram Agrawal
				248 / 1 / 1	Private	Padat	0.020	Five star Developers Pvt. Ltd. Proprietor Director Pawan s/o Indorilal Jain
				248 / 1 / 2	Private	Padat	0.020	Amrit s/o Lundchand Mehta
				365 / 1	Private	Irrigated	0.098	Daulat s/o Pyarji Nayata
				382 / 1	Private	Padat	0.108	M/s. Setelite Corporation Proprietor Partner Mukesh s/o Raskilal Jhaveri
				388 / 2 / 5	Private	Padat	0.002	Niraj s/o Jagdish Dhanani
				381 / 2	Private	Padat	0.041	Sneh w/o Paras Kumar Saand, Madhu w/o Abhay Kumar Saand, Seema w/o Nemichand Saand
				<b>Total</b>			<b>2.029</b>	
			(5) Bicholi Hapsi	10	Govt.	Charnot	0.040	Govt. Charnot
				12 / 1 / 5	Private	Padat	0.027	Rajesh s/o Motichand Choradia
				12 / 3	Private	Padat	0.180	Mahendra singh s/o Harpalsingh, Miss Pallavi d/o Makhantal Verma
				31 / 3 / 15	Private	Padat	0.005	Govind Sarda
				32 / 1 / 1	Private	Padat	0.044	Hindusingh s/o Chotusingh Malviya
				32	Private	Padat	0.010	Samvad Grah Nirman Sarkari Sanstha Maryadit Proprietor Director P. Chand
				39	Private	Padat	0.045	Subhash, Sunil s/o Santosh Gavde, Santosh Gavde s/o Tukaram Gavde, Smt. Jaya
				45	Govt.	Charnot	0.060	Govt. Charnot

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				135/1	Private	Padat	0.025	Niraj s/o Shrichand Panjwani, Smt. Kavita w/o Shrichand Panjwani, Smt. Nilu w/o Hiralal Panjwani
				138/1/1	Private	Padat	0.010	Pujraj singh etc.
				56/1	Private	Padat	0.030	Dashrath singh etc.
				<b>Total</b>			<b>0.476</b>	
			(6) Bicholi Mardana	101/1/1	Govt.	Rasta	0.049	Govt. Rasta
				<b>Total</b>			<b>0.049</b>	
			(7) Mundala Nayata	555/3	Private	Padat	0.028	Mohd. Ijrish s/o Mohd. Yunush Mohammad, Iliyas s/o Kherula, Yusuf s/o Ramjyan Khan
				414/3/3	Private	Diverted	0.030	Satvindra singh s/o Dr. R.S. Makhija, Ramandeep Kaur w/o Satvindrasingh
				414/3/1	Private	Padat	0.026	Alihushen Allabaksha, Khudabaksha Vali, Mohammad s/o Gulab Nayata
				552/1	Private	Padat	0.004	Mubarik, Amjad Khan s/o Shahnawaj Khan
				<b>Total</b>			<b>0.088</b>	
			(8) Rala Mandal	129	Govt.	Charnot	0.091	Govt. Charnot
				137	Private	Padat	0.020	Pramila w/o Ravindrakumar Vyas, Punamchand, Nagulal, Padamchand, Hukumchand s/o Sakar
				<b>Total</b>			<b>0.111</b>	
			(9) Kelod Kartal	852/1/1/1	Private	Padat	0.003	Balkrishna s/o Nanakchand
				853/1	Private	Padat	0.021	Lakhan s/o Mahavir Prasad Gupta
				856/1/1	Private	Padat	0.003	Narendra singh s/o Tejsingh
				841/1/1	Private	Irrigated	0.010	Gitabai w/o Chagan etc. Rajput
				842/1	Private	Irrigated	0.020	Manoramabai w/o Gajanand Rao etc. Jamidar
				843	Govt.	Padat	0.020	Govt. Charnot
				844/1	Private	Padat	0.020	Dhulichand s/o Kishanchand Rajput
				828/1/K	Private	Irrigated	0.030	Shiladevi w/o Chandrashekhar Rajput Jamidar
				<b>Total</b>			<b>0.127</b>	
			(10) Rau Jagir	555	Private	Padat Colony	0.165	Ram Rahim Colony
				557/1	Private	Padat	0.044	Mohan s/o Punaji
				557/2	Private	Padat	0.014	Anandkumar s/o Kalyanmal Nyati

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				557 / 3	Private	Padat	0.015	Gopaldas s/o Ramnath Nyati
				557 / 4	Private	Padat	0.015	Sampatkumar s/o Ramchand Nyati
				557 / 5	Private	Padat	0.014	Manishkumar s/o Radheshyam Nyati
				557 / 6	Private	Padat	0.014	Smt. Indiradevi w/o Girdharilal, Gopaldas s/o Rangnath, Manish
				557 / 7	Private	Padat	0.015	Sampatkumar s/o Ramchand, Anand s/o Kalyanmal, Manish s/o Radheshyam
				557 / 8	Private	Padat	0.024	Rajendra Kumar s/o Vithaldas Nyati
				557 / 9	Private	Padat	0.034	Santoshdevi w/o Sampatkumar Nyati
				557 / 10	Private	Padatk	0.015	Mahesh s/o Kailashchand, Shantilal d/o Chaturbhuj Patidar
				557 / 11	Private	Padat	0.015	Smt. Virendra w/o Karnveer
				558 / 4	Private	Padat	0.070	M/s. Suleh Developers Pvt. Ltd. Proprietor Manoj s/o Nandlal Suleh
				<b>Total</b>			<b>0.454</b>	
				<b>Grand Total</b>			<b>3.699</b>	

[F. No. NHAI/NHDP-V/MC-II/LA/ID]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.